



प्रधान कार्यालय

Headquarters Office

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन

Central Organisation for RAILWAY ELECTRIFICATION

इलाहाबाद Allahabad - 211001.

पत्रांक-कोर/पीआर/010/भाग-7

दिनांक -31.01.2019

**केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन में  
क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन**

महाप्रबंधक/कोर श्री रतन लाल की अध्यक्षता में दिनांक 31.01.2019 को केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन, इलाहाबाद में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई।

महाप्रबंधक महोदय ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में कहा कि यह सुखद संयोग है कि कुंभनगरी इलाहाबाद में राजभाषा के प्रचार-प्रसार पर विचार-विमर्श करने हेतु हम सभी को एकत्रित होने का मौका मिला है। इसी माह कुछ दिन पूर्व यानि की 10 जनवरी को दुनियाभर में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। इस प्रकार हम हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएं, वे व्यावहारिक रूप में लागू किए जाएं।

इससे पहले मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजीनियर श्री विनोद कुमार वर्मा ने अध्यक्ष (महाप्रबंधक) सहित सभी उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि 15 जनवरी से पवित्र संगम तट पर चल रहे कुंभ मेले के पावन अवसर पर आयोजित इस वर्ष की यह पहली बैठक है। क्षेत्रीय कार्यालयों से आए अधिकारी एवं प्रतिनिधिगण इस मेले की छटा का आनंद लें क्योंकि धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व के साथ-साथ मेले में राजभाषा का प्रमुखता से उपयोग एक सुखद अनुभूति प्रदान करता है।

बैठक में मुख्यालय के विभागाध्यक्ष सर्वश्री आलोक गुप्ता, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सत्य प्रकाश, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, डी.के.गुप्ता, प्रमुख वित्त सलाहकार( भण्डार), आर.एस.मीणा, महानिरीक्षक सह मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रिसुब तथा परियोजनाओं के उप मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रतिनिधि एवं कोर मुख्यालय के सभी विभागों के संपर्क अधिकारी (राजभाषा) भी उपस्थित थे। बैठक का संचालन वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं सदस्य- सचिव श्रीमती सुनीला यादव ने एवं धन्यवाद ज्ञापन उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री आकाश दीप ने किया।

( एस.के.मिश्रा )

मुख्य जन संपर्क अधिकारी

कोर/इलाहाबाद